



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 40) नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 2—अक्टूबर 8, 2004 (आश्विन 10, 1926)
No. 40) NEW DELHI, SATURDAY, OCT. 2—OCT. 8, 2004 (ASVINA 10, 1926)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अपसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली-110004, दिनांक 15 सितम्बर 2004

सं० ए-34011/4/01-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री जे० राधाकृष्णन, सहायक को 1 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से, राष्ट्रपति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० एस० राणा, अवर सचिव (प्रशा०)

सं० ए-34011/4/01-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री एम० ए० सिद्धीकी, सहायक को, श्री जे० राधाकृष्णन द्वारा अनुभाग अधिकारी का पद त्यागन और राष्ट्रपति के अपर निजी सचिव का पद संभालने पर, 1 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से, राष्ट्रपति सचिवालय में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० एस० राणा, अवर सचिव (प्रशा०)

सं० ए-34011/4/01-प्रशासन—राष्ट्रपति, श्री के० एस० जगगा, सहायक को 1 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से, राष्ट्रपति सचिवालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

आर० एस० राणा, अवर सचिव (प्रशा०)

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 सितम्बर 2004

सं० ए-22017/3/2004-पीएमए—राष्ट्रपति जी, आयकर विभाग की सहायक आयुक्त सुश्री मोनिका घासी, आई०आर० एस० (2001) को दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में प्रधानमंत्री की अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. प्रधानमंत्री जी के निजी स्टॉफ में सुश्री घासी की नियुक्ति प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल तक तथा उनके निवेका-धीन होगी।

पी० के० राय, अवर सचिव

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 अगस्त 2004

सं० पी एफ/2550(3)/जी एन-5247/2004/ए एन-1—
दिनांक 15 सितम्बर, 2003 की अधिसूचना सं० पी एफ
2550(3)/जी एन-4987/2003/ए एन-1 के क्रम में, आंध्र
प्रदेश सरकार के पंचायती राज और ग्रामीण विकास विभाग
में शोध/संदर्भ अधिकारी, श्री जी० रंगा राव की प्रतिनियुक्ति
की अवधि 1 अगस्त, 2004 से 31 जुलाई 2005 तक और
एक वर्ष के लिए उन्हीं शर्तों पर बढ़ायी जाती है जो इस संबंध
में पहले जारी की गई थीं।

आनंद बी० कुलकर्णी, संयुक्त सचिव

अन्तरिक्ष विभाग

बेंगलूर-560094, दिनांक 23 अगस्त 2004

सं० 5/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग
के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में निम्नलिखित व्यक्तियों को
वैज्ञानिकों/इंजीनियरों-एस० सी के पद पर अस्थायी रूप में
प्रत्येक के समक्ष दी गई तारीख के पूर्वाह्न से आगामी आदेश
तक नियुक्त करते हैं :—

क्रम सं०	नाम	नियुक्ति की तिथि
श्री/श्रीमती/कुमारी		
1.	सिहाचला राव चिक्कला	28-06-2004
2.	सतीश चन्दन आर०	05-07-2004
3.	संजीव कुमार	19-07-2004
4.	नीता तिरुमल	19-07-2004

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 5/1(2)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग
के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री देवशिश बसु, वैज्ञानिक/
इंजीनियर-एस० सी का सेवा से त्यागपत्र दिनांक 26-7-04
के अपराह्न से स्वीकार करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 5/1(2)/2004-I—अन्तरिक्ष विभाग के इसरो
उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में श्री एम० साबाशिव राव, वैज्ञानिक/
इंजीनियर-एस० एफ० ने स्वीकृत रूप में निवृत्ति स्वीकार
होने के परिणामस्वरूप दिनांक 02-07-2004 के पूर्वाह्न
से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 5/1(2)/2004-I—श्री ए० हनुमन्तरायप्पा ने
अपनी निवृत्ति आयु प्राप्त के परिणामस्वरूप अन्तरिक्ष

विभाग के इसरो उपग्रह केन्द्र, बेंगलूर में वैज्ञानिक/इंजीनियर-
एस० ई० के पद का कार्यभार दिनांक 30-6-2004 के
अपराह्न से छोड़ दिया है।

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 4/1(2)/2004-I—अन्तरिक्ष विभाग के सतीश
धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरीकोटा में निम्नलिखित
अधिकारियों ने अपने निवृत्ति आयु प्राप्त के परिणामस्वरूप
प्रत्येक के सामने दी गई तारीखों के अपराह्न से कार्यभार छोड़
दिया है:—

क्रम सं०	नाम	पद	कार्यभार छोड़ने की तिथि
श्री/श्रीमती/कु०			
1.	के० सोमराजन पिल्लै	प्रधान, कर्मिक व सामान्य प्रशासन	31-5-2004
2.	एस० जी० आदिकेशवन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०	31-5-2004
3.	पी० बेंकटेश्वरलु	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०	31-5-2004
4.	एम० कृष्णन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०	30-6-2004
5.	पी० बेंकटेश्वरन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०	30-6-2004
6.	पी० माधुसू	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०	30-6-2004

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 4/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के
सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरीकोटा में श्री के०
शशिकुमार को प्रधान, कर्मिक व सामान्य प्रशासन के पद पर
स्थापना रूप में दिनांक 28-03-2004 के पूर्वाह्न से
आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 4/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के
सतीश धवन अन्तरिक्ष केन्द्र, शार, श्रीहरीकोटा में डॉ० कौल
अरता जोगन्द्रनाथ को चिकित्सा अधिकारी-एस० सी० के
पद पर अस्थाई रूप में दिनांक 06-5-2004 के पूर्वाह्न से
आगामी आदेश तक नियुक्त करते हैं।

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 9/1(1)/2004-I—राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के इन्सैट-मुख्य नियंत्रण सुविधा, हासन में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-1-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं:---

क्र० सं०	नाम	पद जिस पर पदोन्नति की गई
1	2	3
	श्री/श्रीमती/कु०	
1.	ए० के० बंडीवाड	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० एफ०
2.	राम राव जी	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०

1	2	3
3.	शीवेन्द्र कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० ई०
4.	आर० आनंद तोष	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
5.	जी० शशिधर	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
6.	आर० वेंकटेश्वर राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
7.	जावेद एसएआर किवरेशो	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
8.	खीराज अहमद	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
9.	एस० के० खुबा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
10.	देविका पी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०
11.	एम० राजेन्द्र कुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

सं० 2/1(1)/2004-I :---राष्ट्रपति, अन्तरिक्ष विभाग के उन्नत आँकड़ा संसाधन अनुसंधान संस्थान, सिकन्दराबाद में निम्नलिखित वैज्ञानिकों/इंजीनियरों को प्रत्येक के सामने दिए गए पदों पर स्थानापन्न रूप में दिनांक 1-7-2004 के पूर्वाह्न से आगामी आदेश तक पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं :---

क्र० सं०	नाम	पद जिससे पदोन्नति की गई	पद जिस पर पदोन्नति की गई
	श्री/श्रीमती/कु०		
1.	पी० महेन्द्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
2.	जे० जयवर्धन	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
3.	पी० टी० शिवकुमार	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
4.	के० राघवेन्द्रा	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
5.	वाँघ गणेश नाना	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
6.	सुबोध बहुगुणा	वैज्ञानिक/इंजीनियर एस० सी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
7.	वाई० लक्ष्मण राव	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० डी०
8.	बी० अरुल	वैज्ञानिक/सहायक-सी०	वैज्ञानिक/इंजीनियर-एस० सी०

के० एस० रामचन्द्र, उप सचिव

योजना आयोग

दिनांक 23 जुलाई 2004

नई दिल्ली, दिनांक 9 जुलाई, 2004

सं० ए० 11013/64/2004-प्रशा० III—राष्ट्रपति, श्री एच० सुबैर, योजना आयोग के सीएसएसएस काडर के निजी सहायक का सदस्य (प्रो० अभिजात सेन) के निजी स्टाफ में, पदों के सृजन की स्थिति में प्रतिनियुक्ति आधार पर रु० 6,500-200-10,500/- के वेतनमान पर सदस्य (प्रो० अभिजात सेन) के निजी स्टाफ में प्रथम निजी सहायक के रूप में दिनांक 5-7-2004 (पूर्वाह्न) से, सदस्य, योजना आयोग की इच्छा या उनके द्वारा कार्यालय छोड़ने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

सं० ए-11013/64/2004-प्रशा०-III— राष्ट्रपति, दूरसंचार विभाग के सीएसएसएस काडर के निजी सचिव श्री राजेश शर्मा को सदस्य (प्रो० अभिजात सेन) के निजी स्टाफ में रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में निजी सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर दिनांक 20-07-2004 (पूर्वाह्न) से सदस्य, योजना आयोग की इच्छा अथवा उनके कार्यालय छोड़ने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

दिनांक 5 अगस्त, 2004

सं० ए-11013/67/2004-प्रशा० III :—राष्ट्रपति, योजना आयोग के सीएसएसएस काडर के निजी सचिव श्री सोमनाथ तनेजा की योजना आयोग के सदस्य (श्री बी० एन० युगान्धर) के निजी स्टाफ में रुपये 10,000-325-15,200/- के वेतनमान में निजी सचिव के रूप में तदर्थ आधार पर दिनांक 12-07-2004 (पूर्वाह्न) से सदस्य, योजना आयोग की इच्छा अथवा उनके कार्यालय छोड़ने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

रवजीत सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 2004

सं० ए० 43014/01/2000-प्रशा० II — आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 14-7-2004 के आदेश सं० 13016/2/2003-आईईएस के अनुसरण में, श्री एस० के० मोहंती, आईईएस के ग्रेड III अधिकारी ने योजना आयोग में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी के रूप में वेतनमान रु० 10,000-325-15,200/- में दिनांक 19-08-2004 (पूर्वाह्न) से कार्यभार संभाल लिया है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 1 सितम्बर 2004

सं० एफ० 6 (1914)/2004-प्रशासन-1—कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 अगस्त 2004 के आदेश सं० 21/13/2004-सी० एस० I के तहत राष्ट्रपति, श्री हरमोहिन्दर सिंह, सी० एस० एस० को योजना आयोग में 12000-375-16500 रु० के वेतनमान में दिनांक 30-08-2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक तदर्थ आधार पर उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति श्री हरमोहिन्दर सिंह को उप सचिव के पद पर अनिश्चित काल के लिए बने रहने अथवा चयन सूची में नियमित नियुक्ति अथवा सी० एस० एस० के चयन श्रेणी में वरीयता का अधिकार प्रदान नहीं करती और यह तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द की जा सकती है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

दिनांक 14 सितम्बर 2004

सं० एफ० 6(1894)/2004-प्रशा०-I—कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के आदेश सं० 9/20/2004-ई० ओ० (एस० एम०-I) के तहत सूचित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए, योजना आयोग में सलाहकार श्रीमति सुमन स्वरूप, आई० ए० एस० (ए० जी० एम० यू-69) की नियुक्ति को उनके

लिए उक्त पद का वैयक्तिक उन्नयन के आधार पर दिनांक 10-9-2004 से भारत सरकार के सचिव के स्तर व वेतन में पुनः अधिसूचित किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

सं० एफ० 6(1890)/2003-प्रशा०-1—कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10 सितम्बर, 2004 के आदेश सं० 9/20/2004-ई० ओ० (एस० एम०-I) के तहत सूचित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन का अनुपालन करते हुए, योजना आयोग में सलाहकार सुश्री सुषमा चौधरी, आई० ए० एस० (जे० के० : 69) की नियुक्ति को उनके लिए उक्त पद का वैयक्तिक उन्नयन के आधार पर दिनांक 10-09-2004 से भारत सरकार के सचिव के स्तर व वेतन में पुनः अधिसूचित किया जाता है।

के० के० छाबड़ा, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर, 2004

सं० एफ० 6(1915)/2004-प्रशा०-1—कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 31 अगस्त, 2004 के आदेश सं० 3/3/2004-ई० ओ० (एस० एम०-I) के तहत सूचित मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति के अनुमोदन के अनुपालन में श्रीमती मीनाक्षी दत्ता घोष, आई० ए० एस० (एजीएमयू : 70) ने दिनांक 03-09-2004 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में सचिव के स्तर में सलाहकार का पदभार संभाल लिया है।

टी० आर० मीणा, निदेशक (प्रशासन)

दिनांक 10 सितम्बर 2004

सं० एफ० 6(1561)/93-प्रशासन-1—भारतीय अन्तराष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (इक्रियर), नई दिल्ली में परामर्शदाता के पद पर विदेश सेवा शर्तों के आधार पर उनकी नियुक्ति के परिणामस्वरूप, आई० ई० एम० के एन० एफ० एस० जी० अधिकारी तथा योजना आयोग में निदेशक श्री के० एल० दत्ता को इक्रियर, नई दिल्ली में पदभार संभालने हेतु योजना आयोग में उनके पदभार से दिनांक 13-09-2004 (पूर्वाह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

टी० आर० मीणा, निदेशक (प्रशासन)

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर 2004

सं० ए० 11013/2/2003-प्रशा०-I (वि० वि०)—राष्ट्रपति महोदय, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग के संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा

का ग्रेड-I) की जैड० एस० सेवा को दिनांक 16 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक विधि और न्याय मंत्रालय के विधायी विभाग में रु० 22400-525-24500 के वेतनमान में अपर सचिव के उन्नत किए गए पद पर नियुक्त करते हैं।

किरण पुरी, उप सचिव

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 8 सितम्बर 2004

सं० ए०-12023/14/99-प्रशा०-III (वि० का०)---62 वर्ष की आयु होने पर, आयकर अपील अधिकरण में लेखाकार सदस्य, श्री पृथ्वीराज माझी, आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा शर्तों) नियम, 1963 के नियम II के अनुसार, दिनांक 6 सितम्बर 2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी० एस० रत्नम, अवर सचिव

दिनांक 9 सितम्बर, 2004

सं० ए-12023/16/97-प्रशा०-III (वि० का०)---62 वर्ष की आयु होने पर, आयकर अपील अधिकरण में लेखाकार सदस्य, श्री टी० एन० चौपड़ा, आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा शर्तों) नियम, 1963 के नियम 11 के अनुसार, दिनांक 31 अगस्त, 2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए हैं।

बी० एस० रत्नम, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2004

सं० 20/जी/2637-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, श्री राजीव शर्मा, (आईडीईएस : 84) को गृह मंत्रालय में निदेशक के रूप में दिनांक 13 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से पांच वर्षों के लिए अथवा अगले आदेशों के होने तक, के लिए नियुक्त करते हैं।

एस० के० भटनागर, अवर सचिव

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर, 2004

सं० 14034/19/2004-रा० भा० (प्रशि०)---राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी अनुशांसा के फलस्वरूप राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना में श्री आर० सी० भट्ट, सहायक निदेशक (हिन्दी टंकण एवं हिन्दी आशुलिपि) को केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान/हिन्दी शिक्षण योजना, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय में उप निदेशक (हिन्दी टंकण एवं

हिन्दी आशुलिपि) के पद पर रुपये 10,000-325-15200 के वेतनमान में, पदोन्नति पर, दिनांक 13 अगस्त, 2004 (पूर्वाह्न) से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस रमणन, अवर सचिव

नई दिल्ली-3, दिनांक 20 सितम्बर, 2004

सं० 13011/5/2004-रा० भा० (नी० प्र०)---राष्ट्रपति, श्रीमती जानकी जनमेजय, उप निदेशक (तदर्थ) को राजभाषा विभाग के अधीनस्थ कार्यालय, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो में उप निदेशक के पद पर रु० 10000-325-15200/-के वेतनमान में दिनांक 20-9-2004 के पूर्वाह्न से पदोन्नति के आधार पर नियुक्त करते हैं।

बृजमोहन सिंह नेगी, निदेशक

कामिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन-मंत्रालय

(कामिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2004

सं० 13017/12/2003 अ० भा० से०-(I)---केन्द्रीय सरकार, भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमवली, 1954 के नियम 5 उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सरकारों की सह-मति से श्री गिरधारी लाल, भारतीय प्रशासनिक सेवा (SCS) को भारतीय प्रशासनिक सेवा में उत्तर प्रदेश संवर्ग से उत्तरांचल संवर्ग में तत्काल प्रभाव से स्थानांतरित करती हैं।

के० के० शर्मा, डेस्क अधिकारी

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 2004

सं० 06/पी बी-I/2004---राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य केडर ग्रेड-IV और साइफर केडर ग्रेड-II के निम्नलिखित अधिकारियों को इस मंत्रालय के दिनांक 6 जूलाई 2004 के कार्यालय आदेश सं० क्यू/केडर/584/8/2004 और दिनांक 6-7-2004 के परिशिष्ट सं० क्यू/केडर/584/3/2004 के अनुसार उनके नामों के आगे दर्शाई गई तिथियों से भा० वि० से० (ख) के सामान्य केडर के एकीकृत ग्रेड II और III में स्थानापन्न आधार पर नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तारीख	प्रतिनियुक्ति स्थान
1.	श्री एस० एन० शर्मा	11-5-04	भारतीय उच्चायोग, मपूतो
2.	श्री सूरज प्रकाश	19-7-04	भारतीय दूतावास
3.	सुश्री भारती भटनागर	3-6-04	बांशि गटन कश्मीर एकक

उपरोक्त अधिकारियों ने उनके नाम के सामने दी गई तारीख से अनुभाग अधिकारी के पद का कार्यभार संभाल लिया है।

रमेश सी० चड्ढा, प्रशासनिक अधिकारी (पी वी-1)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 2004

सं० ए-19012/3/1999-प्रशा० 2/1 ए०— राष्ट्रपति, श्री योगेश चन्द्र (भा० आ० से० : 1969) को वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग में 22400-525-24500/- रूपए के वेतनमान में 09 अगस्त, 2004 के पूर्वान्त से आगामी आदेश तक वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० वर्मा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2004

सं० 2/(13)/2000-सिक्का-I—राष्ट्रपति, इस विभाग की दिनांक 7-8-2001 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, भारत सरकार दफ्तार में महाप्रबंधक के पद पर 18,400-22,400/- सं० के वेतनमान में प्रसान्त कुमार दास की नियुक्ति को प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर दिनांक 7-8-2004 से एक वर्ष अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

अपराजिता चौधरी, अवर सचिव

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2004

सं० ए-11019/1/2004-स्थापना—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) के निम्नलिखित ग्रेड-1 अधिकारियों अवर सचिव को वित्त मंत्रालय संवर्ग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा की प्रवर्णन कोटि (उप सचिव) में तदर्थ आधार पर उनके नाम के आगे दर्शाई गई तारीख से अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं०	नाम	प्रभावी तारीख
1.	श्री आर० के शर्मा	27-8-2004
2.	श्री एस० डी० एस० मिन्हास	23-8-2004

उक्त तदर्थ नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों एवं निबंधनों के अधीन होगी :-

(क) तदर्थ पदोन्नतियां उन्हें ऐसा कोई अधिकार प्रदान नहीं करती हैं जिससे वे अनिश्चित काल तक ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए

चयन सूची में शामिल होने अथवा प्रवर्णन कोटि में वरीयता का दावा कर सकें।

(ख) तदर्थ नियुक्तियां बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त की जा सकती हैं।

एस० पी० एस० सांगवान, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पूर्ति प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 सितम्बर 2004

सं० ए-12022/1/2003-स्था०-I—राष्ट्रपति, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, वाणिज्य विभाग में वर्तमान महानिदेशक (पूर्ति तथा निपटान) श्री एस० के० सूद, भा० प्र० सेवा (हि०प्र० : 71) को दिनांक 27-08-2004 के पूर्वान्त से अगले आदेशों तक, पदेन अपर सचिव के रूप में भी नियुक्त करते हैं।

एस० के० देव, अवर सचिव

(औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई 2004

सं० ए-45011/03/2004-व्य-1—राष्ट्रपति, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के स्थायी सहायक (एस० सी०-एस०एल०-1988) श्री अजय कुमार मिश्र को 14 जुलाई, 2004 के पूर्वान्त से अगले आदेशों तक उसी पद पर तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री ए० के० मिश्र की अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति विलुक्त तदर्थ आधार पर है और इससे अधिकारी को उक्त ग्रेड में अनिश्चित अवधि तक जरो रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा और यह नियुक्ति कामिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 25 मार्च 2004 के का० जा० सं० 21/9/2004-सी०एस-1 में निर्धारित शर्तों के भी अधीन है।

ज० ज० कौर, अवर सचिव

सं० ए-45011/04/2002-व्य०-1—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को, जिन्हें अनुभाग अधिकारी ग्रेड संयुक्त सीमित विभागीय प्रतिरोधों परीक्षा, 2002 के परिणामों के आधार पर औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग को अर्बटित किया गया है, प्रत्येक के सामने उल्लिखित तारीख से अगले आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के

केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	रैंक सं०	नियुक्ति की तारीख
सर्वश्री			
1.	नम्बूरी कुमारा स्वामी	06	24-05-2004
2.	वडाली रामबाबू	11	21-05-2004
3.	श्रीमती मनमीत कौर	13	05-05-2004
4.	नरेश कुमार	28	31-05-2004
5.	प्रह्लाद सिंह डंगवाल	33	05-05-2004
6.	चन्द्र मोहन नेगी	34	08-07-2004

ज० ज० कौर, अवर सचिव

आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 2004

सं० ए-32015/1/2004-आ० सं० (प्रशा० I) — राष्ट्रपति आर्थिक सलाहकार का कार्यालय के निम्नलिखित कनिष्ठ अन्वेषकों को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि अथवा अगले आदेश होने तक इनमें से जो भी स्थिति पहले हों, तक के लिए इस कार्यालय में तदर्थ आधार पर वरिष्ठ आर्थिक अन्वेषक के पद पर नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	तदर्थ पदोन्नति का पद	पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर कार्य करते रहने की अवधि
1.	श्री लाटूर सिंह	वरिष्ठ आर्थिक अन्वेषक	1-10-2004 से 31-1-2005
2.	श्री आशीष बनर्जी	-वही-	-वही-
3.	श्रीमती कमलेश भाटिया	-वही-	-वही-

यह सभी पदोन्नतियां पूर्णतः अस्थाई एवं तदर्थ आधार पर की गई हैं, जिसके लिए उक्त कर्मचारियों में से किसी भी कर्मचारी को इन पदों पर बने रहने या इन श्रेणियों में वरियता मांगने का या स्थाई होने का कोई अधिकार नहीं होगा। सरकार संबंधित अधिकारी की उक्त तदर्थ नियुक्ति का कोई कारण बताए अथवा सूचना आदि दिए बिना ही समाप्त कर सकती है।

जी० एस० नेगी, अपर आर्थिक सलाहकार

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 14 सितम्बर 2004

सं० 19/2004 (ए-12026/3/2004-स्था०) — इस मंत्रालय के दिनांक 9 जून, 2004 का अधिसूचना सं० 11/2004 को रद्द करते हुए, राष्ट्रपति, श्री पी० जी० त्रिवेदी, उप सचिव, गुजरात सरकार को दिनांक 8 जून, 2004 के

पूर्वाह्न से 14300-400-18300 रुपए के वेतनमान में वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला के विशेष कार्य अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री पी० जी० त्रिवेदी की नियुक्ति सह-अवधि के आधार पर अथवा जब तक वस्त्र मंत्री चाहेंगे तब तक की अवधि, इनमें से जो भी पहले हो, तक होगी।

आर० सुब्रमण्यम, निदेशक

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2004

सं० ए-19011/8/99-स्थापना — पूर्व पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री राम नईक) द्वारा 22-5-2004 को अपना पदभार छोड़ने के उपरांत तथा उसके बाद एक महीने की समाप्त अवधि देने के बाद, अर्थात् 21-6-2004 (पूर्वाह्न) से, श्री अपूर्व चन्द्र, भा० प्र० से० (म० रा० : 88), जो पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री के निजी सचिव के रूप में काम कर रहे थे, की सेवाएं महाराष्ट्र सरकार को सौंपी जाती हैं।

एल० एस० नेगी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 8 सितम्बर 2004

सं० ए-19011/12/2004 भा० सं०-II-राष्ट्रपति, श्री अशोक चावला, भा० प्रशा० से० (गुजरात : 73) को रसायन और उर्वरक मंत्रालय में 6 सितम्बर, 2004 (पूर्वाह्न) से अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार नियुक्त करते हैं।

ए० पी० सिंह, निदेशक

कोयला और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 सितम्बर 2004

सं० पी० 1/369/99-स्थापना — इस विभाग की दिनांक 27 अगस्त, 2004, को तनत अरुण अग्रवाल का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति, श्री हेम कुमार मंडे, आई० ए० एस० (प० बंगाल : 82) को 28 अगस्त, 2004 के आराह्न से खान विभाग के संयुक्त सचिव पद से आने मूलतः यानो पश्चिम बंगाल सरकार को रिपोर्ट करने के निदेश से पदभार मुक्त करते हैं। श्री हेम पाण्डे को दिनांक 29-8-2004 से 28-10-2004 तक प्रदान किए गए अर्जित अवकाश रद्द किए जाते हैं।

टी० एल० भाटिया, अवर सचिव

लघु उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 2004

सं० ए०-30011/10/2004-स्था०-—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित ग्रेड-I अधिकारियों (अवर सचिव) को लघु उद्योग मंत्रालय में पूर्णतः तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) (12,000—16,500/- रुपए) में, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के का० जा० सं० 21/13/2004-सी० एस०-I, दिनांक 20-08-2004 के अनुपालन में, प्रत्येक के साथ दर्ज तिथि के तत्काल प्रभाव से, आगामी आदेशों तक, नियुक्त करते हैं :-

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	नियुक्ति की तिथि
1.	श्री आर० डी० आर्य	27-08-2004 (अपराह्न)
2.	श्री जगजीत सिंह	31-08-2004 (पूर्वाह्न)

एच० आर० जोशी, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2004

सं० ए-12022/1/95-स्था०-—राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13-09-2004 के कार्यालय आदेश संख्या 18/2004 (फाईल संख्या 4/14/2004-सी एस-I) के अनुसरण में श्री जी० एन० श्रीकुमारन, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को 14 सितम्बर, 2004 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के प्रवरण कोटि के संवर्ग पद में उपभोक्ता मामले विभाग में 12 00-375-16500 रुपए के वेतनमान में उप सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एस० के० नायक, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 2 सितम्बर 2004

सं० ए-32013/9/2004-स्थापना-I—राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20 अगस्त 2004 के आदेश सं० 21/13/2004-सी० एस० के अनुसरण में, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के (अवर सचिव) ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 20 अगस्त 2004 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक, तदर्थ आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड (उप सचिव) में नियुक्त करते हैं :-

1. श्री एस० के० सेठी
2. श्री कि० एल० गोयल
3. श्री करनैल सिंह

यह तदर्थ प्रोन्नति ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल

करने अथवा चयन ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रधान नहीं करेगी तथा इस तदर्थ नियुक्ति को बिना किसी कारण दिए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

चन्द्र प्रकाश, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 सितम्बर 2004

सं० ए०-35014/3/99-सी० एच० एस०-IV— केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के गैर-शिक्षण विशेषज्ञ उप-संवर्ग के विशेषज्ञ ग्रेड-II के अधिकारी डॉ० एन० के० मिश्रा ने सऊदी अरब में विदेशी नियुक्ति से वापस आकर दिनांक 28-5-2004 (पूर्वाह्न) से सी० जी० एच० एस०, कोलकाता में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

वाई० के० तलवार, उप सचिव

(परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2004

सं० ए०-32014/2/2004-स्था० III/प्रशा० (प०क०) — कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं० 21/13/2004-सीएस-I, दिनांक 20-8-04 के तहत परिवार कल्याण विभाग में अवर सचिव के पद पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री जे० के० त्रिखा की तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदन होने के परिणाम-स्वरूप उन्हें 20-8-04 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर उप सचिव नियुक्त किया जाता है।

महेश कुमार, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2004

सं० ए०-32014/2/2004-स्था० III प्रशा० I (प०क०) — कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के आदेश सं० 21/13/2004-सीएस-I, दिनांक 20-8-04 के तहत परिवार कल्याण विभाग में अवर सचिव के पद पर कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I अधिकारी श्री महेश कुमार की तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदन होने के परिणाम-स्वरूप उन्हें 20-8-04 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक तदर्थ आधार पर उप सचिव नियुक्त किया जाता है।

आर० एन० बंसल, अवर सचिव

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर 2004

उ० ए०-38014/1/2004-प्रशा०-I— सेवा निवृत्ति की आयु हो जाने के फलस्वरूप श्री नवल किशोर मिश्रूरिया, अनु-भाग अधिकारी दिनांक 31-8-2004 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए हैं।

करनैल सिंह, निदेशक प्र 1० (के०एस०)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(महिला एवं बाल विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 6 सितम्बर 2004

सं० 3-7/2004-प्रशा० (II) -- राष्ट्रपति जी ने कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20-8-2004 के आदेश सं० 21/13/2004-सी० एस०-1 के अनुसार श्री एस० एस० नेगी को महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर 12000-375-16500/- रुपए के वेतनमान में उप सचिव के पद पर दिनांक 20-8-2004 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया है।

आर० सावित्री, उप सचिव

सं० 3-7/2004-प्रशा० (I) -- राष्ट्रपति जी ने कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 20-8-2004 के आदेश सं० 21/13/2004-सी० एस०-1 के अनुसार, श्री यशपाल डबास को महिला एवं बाल विकास विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय में तदर्थ आधार पर 12,000-375-16,500/- रु० के वेतनमान में उप सचिव के पद पर दिनांक 20-8-2004 के पूर्वाह्न से नियुक्त किया है।

आर० सावित्री, उप सचिव

संस्कृति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 सितम्बर, 2004

सं० एक० 10-1/2003-पुस्तकालय -- राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल को नियुक्ति समिति के अनुमोदन से डॉ० सुखेंद्र मंडल (प्रोफेसर एवं निदेशक, विश्व-भारती शांतिनिकेतन) को कम अवधि की संविदा के आधार पर 27-8-2004 के पूर्वाह्न से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा अगले आदेश होने तक, जो भी पहले हो 22,400-525-24,500/- रु० के वेतनमान में राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता में निदेशक (जी० सी० एस० समूह 'क' र जयव्रित) के पद पर सूर्य नियुक्त करते हैं।

छोटे लाल, अवर सचिव

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त 2004

सं० पी०एफ०/आर०/88-प्रशासन -- राष्ट्रपति, श्री आर० पी० अनेजा, अवर सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) को 20 अगस्त 2004 से तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. उपर्युक्त नियुक्ति पूर्णतया तदर्थ आधार पर है तथा इसे अनिश्चित काल तक इसी ग्रेड में जारी रखने का कोई अधिकार अथवा चयन सूची में नियमित नियुक्ति के लिए शामिल होने का अधिकार अथवा सी०एस०एस० के ग्रेड में बरीयता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करती।

एस० एस० पनेसर, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 10 सितम्बर 2004

सं० 5021/एन आई सी/2004-प्रशा० II -- राष्ट्रपति, एतद्वारा श्री सुधाकर डी० वी०, (कर्मचारी कार्ड सं० 5021) का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, कर्नाटक राज्य एकक, बंगलूर में वैज्ञानिक-बी के पद से त्यागपत्र दिनांक 30 जून, 2004 की अपराह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

पी० एस० पिल्लै, उपनिदेशक (प्रशा० II)

पोत-परिवहन-मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2004

सं० 12011/1/2003-आई०डब्ल्यू०टी० -- केन्द्र सरकार, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 82) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री के० शंकर नारायणन, भा०प्र०से० (म० प्र० : 70) को 5-8-2004 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक व्यक्तिक आधार पर पद का उन्नयन करके सचिव के पद एवं वेतनमान में अध्यक्ष, भा०अ०ज०प्रा० के वर्तमान पद पर पुनः नियुक्त करती है।

सुशील कुमार, संयुक्त सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितम्बर 2004

सं० ए-12031/4/20004-स्था०-1 -- राष्ट्रपति, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में श्री के० आर० गट्टी, अवर सचिव (स्व स्थाने) को दिनांक 23-6-2004 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सी एस एस ग्रेड-1) के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ नियुक्ति उन्हें अनिश्चित काल तक इस ग्रेड में बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल किए जाने अथवा सी एस एस ग्रेड-1 (अवर सचिव में बरिष्ठता) का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करती।

डा०एन०सी० कौशिक, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 सितम्बर 2004

सं० 22/2004, फा० सं० 25/2(14)/2003-स्था०-एक -- संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा, परीक्षा-2002 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री कुशाग्र शर्मा को दिनांक

27-8-2004 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल) के पद पर रु० 8000—13500 के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री कुमार शर्मा का भार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं० 23/2004 मिसिल सं० 30/5/2004-स्थापना एक—केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा से त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री संतोष कुमार मिश्रा, सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग को दिनांक 6-09-2004 अपराह्न से कार्यमुक्त किया जाता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

सं० 24/2000 मिसिल सं० 30/4/2004-स्थापना एक—केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (समूह 'क') सेवा से त्यागपत्र स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री विनयक पाण्डे सहायक निदेशक/सहायक कार्यपालक इंजीनियर, केन्द्रीय जल आयोग को दिनांक 6-9-2004 (अपराह्न) से कार्यमुक्त किया जाता है।

हरदयाल सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 2004

सं० 7/18/2003-सीजीडब्ल्यूबी—राष्ट्रपति, श्री पी०सी० चटुर्वेदी, सदस्य (एस ए एम), केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में अध्यक्ष के पद पर 26-8-2004 (पूर्वाह्न) से 22,400-525-24,500/- रु० के वेतनमान में पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं।

सोहन एस० सैनी, अवर सचिव

सं० 7/20/2003-सीजीडब्ल्यूबी—राष्ट्रपति, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में क्षेत्रीय निदेशक के ग्रेड में निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दर्शाई गई तिथियों से 18400-500-22400 रुपये के वेतनमान में पदोन्नति पर सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	अधिकारियों का नाम	पदोन्नति की तिथि
सर्वश्री		
1.	एम० मेहता	18-8-2004(पूर्वाह्न)
2.	शोभनाथ राम	30-8-2004 (पूर्वाह्न)

सोहन एस० सैनी, अवर सचिव

(महासागर विकास विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 17 सितम्बर 2004

सं० मविवि/18/4/2004-स्था०—राष्ट्रपति, श्रीमती वीना चोपड़ा को माननीय महासागर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के प्रथम वैयक्तिक सहायक के रूप में 10 सितम्बर 2004 से 6500-200-10500/- रु० के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं।

2. यह नियुक्ति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कपिल सिब्बल) के कार्यकाल तक अथवा जब तक माननीय मंत्री जी चाहें तब तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगी।

बी० एल० कुरील, अवर सचिव

सं० मविवि/18/5/2004-स्था०—राष्ट्रपति, श्रीमती मधु को माननीय महासागर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के अपर निजी सचिव के रूप में 10 सितम्बर, 2004 से 10,000-325-15,200/- रु० के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं।

यह नियुक्ति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा महासागर विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कपिल सिब्बल) के कार्यकाल तक अथवा जब तक माननीय मंत्री जी चाहें तब तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगी।

बी० एल० कुरील, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi-110004, the 15th September 2004

No. A-34011/4/01-Adm.—The President is pleased to appoint Shri J. Radhakrishnan, Assistant as Section Officer in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 01 September, 2004.

R. S. RANA, Under Secy. (Admn)

No. A-34011/4/01-Adm.—The President is pleased to appoint Shri M.A. Siddiqui, Assistant as Section Officer in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 01 September, 2004, on ad-hoc basis, on relinquishment of charge of the post of Section Officer by Shri J. Radhakrishnan to assume charge of the post of Additional Secretary to the President.

R. S. RANA, Under Secy. (Admn)

No. A-34011/4/01-Adm.—The President is pleased to appoint Shri K.L. Jagga, Assistant as Section Officer in the President's Secretariat with effect from the forenoon of 01 September, 2004.

R. S. RANA, Under Secy. (Admn)

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110011, the 13th September 2004

No. A-22017/3/2004-PMA—The President is pleased to appoint Ms. Monika Dhami, IRS (2001), Assistant Commissioner of Income Tax as Additional Private Secretary to the Prime Minister in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from the forenoon of September 10, 2004.

2. The appointment of Ms. Dhami on the personal staff of Prime Minister is coterminous with the tenure of and at the discretion of the Prime Minister.

P. K. ROY, Under Secy.

LOK SABHA SECRETARIAT

New Delhi the 30th August 2004

No. PF. 2550(3)/GN-5247/2004/AN-I—In continuation of Notification No. PF. 2550(3)/GN-4987/2003/AN-I dated 15th September, 2003, the term of deputation in respect of Shri G Ranga Rao, Research/Reference Officer to the panchayat Raj & Rural Development Department, Government of Andhra Pradesh is extended for a further period of one year with effect from 1st August, 2004 upto 31st July 2005 on the same terms and conditions as issued earlier in this regard.

ANAND B. KULKARNI, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SPACE

Bangalore-560094, the 23rd August 2004

No. 5/1(1)/2004-I—The President is pleased to appoint the undermentioned persons as Scientists/Engineers-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of the dates mentioned against each until further orders:—

Sl. No.	Name	Date of appointment
	Shri/Smt/Kum	
1.	Simbachala Rao Chikkala	28.06.2004
2.	Satheesh Chandran. R.	05.07.2004
3.	Sanjeev Kumar	19.07.2004
4.	Neetha Tirmal	19.07.2004

K. S. RAMACHANDRA, Dy Secy.

No. 5/1(2)/2004-I—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Debashish Basu, Scientist/Engineer-SC in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space with effect from the afternoon of 26.07.2004.

K. S. RAMACHANDRA, Dy Secy.

No. 5/1(2)/2004-I:—Consequent on acceptance of Voluntary retirement, Shri M. Sambasiva Rao, Scientist/Engineer-SF in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the forenoon of 02.07.2004.

K.S. RAMANCHADRA, Dy Secy.

No. 5/1(2)/2004-I:—Consequent on attaining the age of superannuation Shri A. Hanumantharayappa, Scientist/Engineer-SE in the ISRO Satellite Centre, Bangalore of the Department of Space has relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of 30.06.2004.

K. S. RAMACHANDRA, Dy Secy.

No. 4/1(2)/2004-I:—Consequent on attaining the age of Superannuation the following Officers in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space have relinquished the charge of the post with effect from the afternoon of the dates mentioned against each:

Sl. No.	Name	Post	Date of relief
1	2	3	4
	Shri/Smt/Kum		
1.	K. Somarajan Pillai	Head, Personnel & General Administration	31.05.2004
2.	S.G. Adikesavan	Scientist/Engineer-SF	31.05.2004
3.	P. Venkateswarlu	Scientist/Engineer-SE	31.05.2004

1	2	3	4
4.	M. Krishnan	Scientist/Engineer-SF	30.06.2004
5.	P. Venkateswaran	Scientist/Engineer-SF	30.06.2004
6.	P. Mathews	Scientist/Engineer-SE	30.06.2004

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 4/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri K. Sasikumar as Head, Personnel and General Administration in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 28.06.2004 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 4/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint Dr. Kaul Aarti Jogindernath as Medical Officer-SC in the Satish Dhawan Space Centre, SHAR, Sriharikota of the Department of Space on temporary capacity with effect from the forenoon of 6.5.2004 and until further orders.

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 9/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the INSAT-Master Control Facility, Hassan of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 1.7.2004 and until further orders.

Sl. No.	Name	Post to which Promoted
	Shri/Smt/Kum	
1.	A.K. Bhandiwad	Scientist/Engineer-SF
2.	Rama Rao G	Scientist/Engineer-SE
3.	Shelendra Kumar	Scientist/Engineer-SE
4.	R. Ananda Thirtha	Scientist/Engineer-SD
5.	G. Shashidhar	Scientist/Engineer-SD
6.	R. Venkateswara Rao	Scientist/Engineer-SD
7.	Javed S.A.R. Qureishi	Scientist/Engineer-SD
8.	Khiraj Ahmed	Scientist/Engineer-SD
9.	S.K. Khupa	Scientist/Engineer-SD
10.	Devika. P	Scientist/Engineer-SC
11.	M. Rajendra Kumar	Scientist/Engineer-SC

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

No. 2/1(1)/2004-I.—The President is pleased to appoint on promotion the undermentioned Scientists/Engineers to the posts mentioned against each in the Advanced Data

Processing Research Institute, Secunderabad of the Department of Space in an officiating capacity with effect from the forenoon of 01.07.2004 and until further orders:—

Sl. No.	Name	Post from which Promoted	Post to which Promoted
	Shri/Smt/Kum		
1.	P. Mahendra	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
2.	J. Jayachandran	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
3.	P.T. Sivakumar	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
4.	K. Raghavendra	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
5.	Wagh Ganesh Nana	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
6.	Subodh Bahuguna	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
7.	Y. Lakshmana Rao	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
8.	M. Vijaya Jyothi	Scientist/Engineer-SC	Scientist/Engineer-SD
9.	B. Arul	Scientific Assistant-C	Scientist/Engineer-SC

K. S. RAMACHANDRA, Dy. Secy.

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 9th July 2004

No. A-11013/64/2004-Adm.III.—The President is pleased to appoint Sh. H. Subair, PA of CSSS cadre of Planning Commission as First P.A. in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- in the personal staff of Member (Prof. Abhijit Sen) on deputation basis subject to the creation of posts in the personal staff of Member (Prof. Abhijit Sen), w.e.f. 05.07.2004 (FN) till Member, Planning Commission desires or demits office, whichever is earlier.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

The 23rd July 2004

No. A-11013/64/2004-Adm.III.—The President is pleased to appoint Sh. Rajesh Sharma, PS of CSSS cadre of Department of Telecommunications as Private Secretary in the personal staff of Member (Prof. Abhijit Sen), in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis w.e.f. 20.07.2004 (FN) till Member, Planning Commission desires or demits office, whichever is earlier.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

The 5th August 2004

No. A-11013/67/2004-Adm.III.—The President is pleased to appoint Sh. Som Nath Taneja, Private Secretary of CSSS cadre of Planning Commission as Private Secretary in the personal staff of Member (Sh. B.N. Yugandhar), Planning Commission in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on deputation basis w.e.f. 12.07.2004 (FN) till Member, Planning Commission desires or demits office, whichever is earlier.

RAVJIT SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 26th August 2004

No. A-43014/01/2000-Admn.II.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 13016/2/2003-IES dated 14.7.2004, Shri S.K. Mohanty, Grade-III of IES has assumed charge as Senior Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- with effect from 19.08.2004 (FN)

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 1st September 2004

No. F.6 (1914)/2004-Adm.I.—In pursuance of Department of Personnel & Training's Order No. 21/13/2004-CS.I dated 20th August 2004, the President is pleased to appoint Shri Harmohinder Singh, CSS, as Deputy Secretary in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/- on ad-hoc basis w.e.f. 30.8.2004 (FN) until further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to Shri Harmohinder Singh to continue in the grade of Deputy Secretary indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade of CSS and the ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

The 14th September 2004

No. F. 6 (1894)/2004-Adm.I.—In pursuance of the ACC's approval communicated by the Department of Personnel & Training *vide* their Order No. 9/20/2004-EO (SM.I) dated 10th September, 2004, the appointment of Smt. Suman Swarup, IAS (AGMU:69) as Adviser in the Planning Commission is hereby re-notified in the rank and pay of Secretary to the Government of India w.e.f. 10.09.2004 by upgrading the post of Adviser on a personal basis.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

No. F. 6 (1890)/2003-Adm.I.—In pursuance of the ACC's approval communicated by the Department of Personnel & Training *vide* their order No. 9/20/2004-EO(SM.I) dated 10th September, 2004, the appointment of Ms. Sushma Choudhary, IAS (JK:69) as Adviser in the Planning Commission is hereby re-notified in the rank and pay of Secretary to the Government of India w.e.f. 10.09.2004 by upgrading the post of Adviser on personal basis.

K. K. CHHABRA, Under Secy.

New Delhi, the 8th September 2004

No. F. 6 (1915)/2004-Adm.I.—In pursuance of ACC's approval conveyed by the Department of Personnel &

Training *vide* their Order No. 3/3/2004-EO (SM.I) dated 31st August, 2004, Smt. Meenakshi Datta Ghosh, IAS (AGMU:70) has assumed charge as Adviser in the Planning Commission at the level of Secretary to the Govt. of India w.e.f. 03.09.2004 (FN).

T. R. MEENA, Dir. (Admn.)

The 10th September 2004

No. F. 6 (1561)/93-Adm.I.—Consequent on his selection for appointment as Consultant with Indian Council of Research for International Economic Relations (ICRIER), New Delhi on foreign service terms, Shri K. L. Datta, NFSG officer of IES and Director, Planning Commission is relieved of his duties from the Planning Commission w.e.f. 13.9.2004 (FN) to join ICRIER, New Delhi.

T. R. MEEMA, Dir. (Admn.)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 16th September 2004

No. A-11013/2/2003-Admn.I(L.D.).—The President is pleased to appoint Shri Z. S. Negi, Joint Secretary and Legislative Counsel (Grade-I of Indian Legal Service) in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice to the upgraded post of Additional Secretary in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice in the scale of pay of Rs. 22,400-525-24,500/- with effect from the forenoon of 16th September, 2004 and until further orders.

KIRAN PURI, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi-110001, the 8th September 2004

No. A-12023/14/99-Admn.III (LA).—On attaining the age of 62 years, Shri Pruthwiraj Majhi, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal stand retired on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 6th September 2004 in accordance with rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

V. M. RATHNAM, Under Secy.

The 9th September 2004

No. A-12023/16/97-Admn.III (LA).—On attaining the age of 62 years, Shri T.N. Chopra, Accountant Member, Income Tax Appellate Tribunal stand retired on superannuation from Government Service with effect from the afternoon of 31st August 2004 in accordance with rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963.

V. M. RATHNAM, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 17th September 2004

No. 20/G/2637-Ad.I—The President is pleased to appoint Shri Rajeev Sharma, (IDES:84), as Director in the Ministry of Home Affairs, with effect from the forenoon of the 13th September, 2004, for a period of five years or until further orders.

S. K. BHATNAGAR, Under Secy.

(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 17th September 2004

No. 14034/19/2004-OL (Trg.)—The President, on the recommendation of the Union Public Service Commission, is pleased to appoint Sh. R.C. Bhatt, Assistant Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography) Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme, Department of Official Language, Ministry of Home Affairs as Deputy Director (Hindi Typewriting and Hindi Stenography), in the Pay Scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on promotion, with effect from the forenoon of 13th August, 2004.

S. RAMANAN, Under Secy.

New Delhi-110003, the 20th September 2004

No. 13011/5/2004-O.L.(P&C)—The President is pleased to appoint Smt. Janki Janmejay, Deputy Director (Adhoc) Central Translation Bureau, a subordinate office of the Department of Official Language as Deputy Director in the scale of pay of Rs. 10000-325-15200/-, on promotion w.e.f. the forenoon of 20th September, 2004.

B.M.S. NEGI, Director

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 20th September 2004

No. 13017/12/2003-AIS(I)—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) rules, 1954 and with the concurrence of the Governments of Uttar Pradesh and Uttaranchal the Central Government hereby transfers Shri Girdhari Lal, IAS (SCS) from IAS Cadre of Uttar Pradesh to the IAS Cadre of Uttaranchal with immediate effect.

K.K. SHARMA, Desk Officer

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 1st September 2004

No. 06/PB-1/2004—The President is pleased to appoint the undermentioned Officers belonging to Grade-IV of General Cadre of IFS (B) and Grade-II of Cypher Cadre to

officiate in Integrated Grade-II & III of General Cadre of IFS(B) with effect from the dates shown against their names in terms of Ministry's OM No. Q/CAD/584/8/2004 dated the 06th July, 2004 and addendum No. Q/CAD/584/3/2004 dated 6.7.04.

Sl. No.	Name of the Officer	Date of promotion	Deployed at
	S/Shri/Ms.		
1.	S.N. Sharma	11.05.2004	HCI, Maputo
2.	Suraj Prakash	19.07.2004	E/I, Washington
3.	Ms. Bharti Bhatnagar	03.06.2004	Kashmir Unit

2. The above named officers have assumed charge of the post of Section Officer with effect from the date shown against their names.

RAMESH CHADHA
Admn. Officer (PB-I)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 13th September 2004

No. A. 19012/3/1999-Admn.II/IA.—The President is pleased to appoint Shri Yogesh Chandra, (IES:1969) as Senior Economic Adviser in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs in the pay scale of Rs. 22400-525-24500/- with effect from the forenoon of 9th August 2004 and until further orders.

S.K. VERMA, Dy. Secy.

New Delhi, the 14th September 2004

F.No.2/13/2000-Coin.I—In continuation of this Deptt.'s Notification of even number dated 7.8.2001, the President is pleased to extend the appointment of Shri. Prasanta Kumar Das as General Manager in India Government Mint in the scale of pay of Rs. 18,400—22,400/- on transfer on deputation basis for a period of one year w.e.f. 7.8.2004 or until further orders, whichever event occurs earlier.

APARAJITA CHOWDHURY
Under Secy.

(BANKING DIVISION)

New Delhi, the 14th September 2004

No. A-11019/1/2004-Estt.—The President is pleased to appoint the following Grade-I officers (Under Secretary) of Central Secretariat Service (CSS) to the Selection Grade

(Deputy Secretary) of CSS of the Cadre of Ministry of Finance on an ad-hoc basis, with effect from the date indicated against their names and until further orders:—

S.No.	Name	Effective Date
1.	Shri R.K. Sharma	27.08.2004
2.	Shri S.D.S. Minhas	23.08.2004

The aforesaid ad-hoc appointments will be subject to the following terms and conditions:—

- The Ad-hoc promotions shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade.
- Ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S.P.S. SANGWAN, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

(SUPPLY DIVISION)

New Delhi, the 15th September, 2004

No. A-12022/1/2003-ESI—The President is pleased to appoint Sh. S.K. Sood, IAS (HP:71), the present Director General (Supplies & Disposals) in the Directorate General of Supplies & Disposals, Department of Commerce, also as ex-officio Additional Secretary, with effect from the forenoon of 27.08.2004, till further orders.

S.K. DEB, Under Secy.

(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION)

New Delhi, the 28th July 2004

No. A-45011/03/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri Ajay Kumar Mishra, a permanent Assistant (SCSL-1988) of the Central Secretariat Service cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce & Industry, as Section Officer in the same cadre, on ad-hoc basis, with effect from the forenoon of 14th July, 2004, until further orders.

2. The ad-hoc promotion of Shri A.K. Mishra to the grade of Section Officer is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right on the officer to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's grade, which is further subject to the conditions laid down in DOPT's O.M. No. 21/9/2004-CS.I, dated 25th March, 2004.

J.J. KAUR, Under Secy.

No. A-45011/04/2002-EI.—The President is pleased to appoint the following officers who have been allocated to the Central Secretariat Service cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion, Ministry of Commerce and Industry, on the basis of the results of the Section Officers' Grade Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2002, as Section Officers in the Central Secretariat Service cadre of the Department of Industrial Policy & Promotion with effect from the date indicated against each until further orders:—

Sl. No.	Name of officer	Rank No.	Date of appointment
	S/Shri		
1.	Namburi Kumara Swamy	06	24.05.2004
2.	Vadali Rambabu	11	21.05.2004
3.	Smt. Manmeet Kaur	13	05.05.2004
4.	Naresh Kumar	28	31.05.2004
5.	Prahlad Singh Dangwal	33	05.05.2004
6.	Chandra Mohan Negi	34	08.07.2004

J.J. KAUR, Under Secy.

OFFICE OF THE ECONOMIC ADVISER

New Delhi, the 16th September 2004

No. A-32015/2/2004-Ec.Ad.(Admn):—The President is pleased to appoint the following junior investigator of the Office of the Economic Adviser as Senior Economic Investigator in this office on ad-hoc basis for the period, as indicated against each, or till further orders, whichever is earlier:—

Sl. No.	Name	Post of Ad-hoc Promotion	Period From	To
1.	Latoor Singh	Senior Economic Investigator	01.10.2004	31.01.2005
2.	Ashish Banerjee	-do-		-do-
3.	Kamlesh Bhatia	-do-		-do-

The appointments, ordered above, is made on purely ad-hoc basis and do not confer any right upon the officer concerned to continue in the same post on long-term basis or for regularization in the same grade or to claim seniority etc. on that basis. Government reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reason or giving notices etc. to the officer concerned.

G.S. NEGI
Additional Economic Adviser

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 14th September 2004

No. 19.2004 (A-12026/3/2004-Estt.):—In supersession of this Ministry's Notification No. 11/2004 dated 9th June, 2004, the President is pleased to appoint Shri P.G. Trivedi, Deputy Secretary, Govt. of Gujarat as Officer on Special Duty (OSD) to Ministry of Textiles (Shri. Shankersinh Veghela), in the scale of pay or Rs. 14300-400-18300 with effect from the forenoon of 8th June, 2004.

2. The appointment of Shri Trivedi will be on co-terminus basis or upto the period as desired by the Minister of Textiles, whichever is earlier.

R. SUBRAHMANYAM, Dir.

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 18th June 2004

F. No. A-19011/3/00 Estt.—Consequent upon demission of the office by former Minister, Petroleum & Natural Gas (Shri Ram Naik) on 22.5.2004, and after allowing winding up period of one month, the services of Shri Apurva Chandra, IAS (MH : 88), who was working as Private Secretary to the then Minister of Petroleum & Natural Gas, are placed at the disposal of the Government of Maharashtra, i.e. with effect from 21.6.2004 (FN).

L. S. NEGI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICALS & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 8th September 2004

No. A-19011/12/2004-HR.II.—The President is pleased to appoint Shri Ashok Chawla, IAS (GJ : 73) as Additional Secretary & Financial Adviser in the Ministry of Chemicals & Fertilizers w.e.f. 6th September, 2004 (FN).

A. P. SINGH, Dir.

MINISTRY OF COAL & MINES

(DEPARTMENT OF MINES)

New Delhi, the 9th September 2004

No. P.I./369/99-Estt.—In supersession to this Department's notification of even number dated 27th August 2004, the President is pleased to relieve Shri Hem Kumar Pande, IAS (WB : 82) from the post of Joint Secretary in the Department of Mines with effect from the afternoon of 28th August 2004 with a direction to report to his parent cadre i.e. Government of West Bengal. The Earned Leave granted to Shri Hem Kumar Pande with effect from 29.8.2004 to 28.10.2004 is cancelled.

T. S. BHATIA, Under Secy.

MINISTRY OF SMALL SCALE INDUSTRIES

New Delhi, the 6th September 2004

No. A-30011 (10)/2004-Estt.—The President is pleased to appoint the following grade-I Officers (Under Secretary) of Central Secretariat Service to the Selection Grade (Deputy Secretary) (Rs. 12,000-16,500/-) of CSS purely on ad-hoc basis in the Ministry of Small Scale Industries, in pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 21/13/2004-CS-I dated 20.08.2004, with effect from the date mentioned against each, until further orders :—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment
1.	Shri R. D. Arya	27.08.2004 (AN)
2.	Shri Jagjit Singh	31.08.2004 (FN)

H. R. JOSHI, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 20th September 2004

F. No. A-12022/1/95-Estt.—In pursuance of Department of Personnel and Training Office Order No. 18/2004 dated 13.9.2004 (F. No. 4/14/2004-CS.I), the President is pleased to appoint Shri G. N. Sreekumaran, CSS as Deputy Secretary in the Department of Consumer Affairs, in the scale of pay of Rs. 12,000-375-16,500/-, with effect from the forenoon of 26th August, 2004 and until further orders.

S. K. NAYAK, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi, the 2nd September 2004

No. A-32013/9/2004-Estt.I—In pursuance to the Department of Personnel and Training Order No. 21/13/2004-CS.I dated 20th August, 2004 the President is pleased to appoint the following officers of Grade-I (under Secretary) of CSS to the Selection Grade (Deputy Secretary) of CSS on an ad-hoc basis with effect from 20th August, 2004 (FN) and until further orders :

1. Shri S. K. Sethi
2. Shri K. L. Goyal
3. Shri Kamail Singh

The ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade and that the ad-hoc appointments may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

CHANDER PRAKASH, Under Secy.

New Delhi-110011, the 20th September 2004

No. A-35014/3/99-CHS.IV.—Consequent on his return from foreign assignment with the Government of Saudi Arabia, Dr. N. K. Mishra, an officer of the Specialist Grade-II of the Non-teaching Specialist Sub-Cadre of Central Health Service assumed the charge of the post of Senior Medical Specialist in CGHS, Kolkata with effect from 28.05.2004 (FN).

Y. K. TALWAR, Dy. Secy.

(DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 25th August 2004

No. A-32014/2/2004/Estt.III/Admn. I (FW).—Consequent upon approval for appointment as Deputy Secretary on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training Order No. 21/13/2004-CS-I dated 20.8.2004, Shri J. K. Trikha, Grade-I officer of the CSS holding the post of Under Secretary in the Department of Family Welfare is hereby appointed as Deputy Secretary on ad-hoc basis w.e.f. 20.8.2004 (FN) and until further orders.

MAHESH KUMAR, Dy. Secy.

New Delhi, the 25th August 2004

No. A-32014/2/2004/Estt.III/Admn. I (FW).—Consequent upon approval for appointment as Deputy Secretary on ad-hoc basis vide Department of Personnel & Training order No. 21/13/2004-CS-I dated 20.8.2004, Shri Mahesh Kumar, Grade-I officer of the CSS holding the post of Under Secretary in the Department of Family Welfare is hereby appointed as Deputy Secretary on ad-hoc basis w.e.f. 20.8.2004 (FN) and until further orders.

R. N. BANSAL, Under Secy.

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 13th September 2004

No. A-38014/1/2004-Admn.I.—Shri N. K. Mithyria, Section Officer retired from Government Service on attaining the age of superannuation with effect from 31.08.2004.

KARNAIL SINGH, Dir. Admn. (KS)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT)

New Delhi, the 06th September 2004

F. No. 3-7/2004-Admn. (II).—The President is pleased to appoint Shri M. S. Negi, as Deputy Secretary in the Department of Women and Child Development, Ministry Human Resource Development in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- with effect from forenoon of

20.8.2004 on adhoc basis in pursuance of Department of Personnel and Training's order No. 21/13/2004-CS, I dated 20.8.2004.

R. SAVITHRI, Dy. Secy.

F. No. 3-7/2004-Admn. (I).—The President is pleased to appoint Shri Yas Pal Dabas, as Deputy Secretary in the Department of Women and Child Development, Ministry Human Resource Development in the scale of pay of Rs. 12000-375-16500/- with effect from forenoon of 20.8.2004 on adhoc basis in pursuance of Department of Personnel and Training's order No. 21/13/2004-CS, I dated 20.8.2004.

R. SAVITHRI, Dy. Secy.

MINISTRY OF CULTURE

New Delhi, the 16th September 2004

No. F. 10-1/2003—Lib with the approval of the Appointment Committee of Cabinet, the President is pleased to appoint Dr. Sudhendu Mandal, (Professor and Director, Vajra Bharati, Santiniketan) to the post of Director (G.C.S. Group 'A' Gazetted) in the National Library, Kolkata, in the pay scale of Rs. 22400-525-24,500/- with effect from the forenoon of 27.8.2004 on short term contract basis for a period of three years or until further orders whichever is earlier.

CHHOTEL LAL, Under Secy.

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS & SPORTS

New Delhi, the 25th August 2004

No. PF/R/88-Admn.—The President is pleased to appoint Shri R. P. Arneja, Under Secretary (Central Secretariat Service) as Deputy Secretary on adhoc basis with effect from 20th August 2004.

The above appointment is purely on adhoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Selection Grade of CSS.

S. S. PANESAR, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 10th September 2004

No. 5021/NIC/2004-Admn. II.—President is pleased to accept the resignation of Sh. Sudhakar D.V. (Emp. Code No. 5021), NIC Karnataka State Unit, Bangalore from the post of Scientist-B with effect from the afternoon of 30th June 2004 and he is relieved of his duties from the same day.

P. S. PILLAI, Dy. Director (Admn. II)

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi, the 10th September 2004

No. 12011/1/2003-IWT.—In exercise of power conferred by Sub-Section (3) of Section 3 of the Inland Waterways Authority of India Act 1985 (82 of 1985), the Central Government re-appoints Shri K. Shankar Narayanan, IAS (MP: 70) to the present post of Chairman, Inland Waterways Authority of India in the rank and pay of Secretary by upgrading the post on personal basis w.e.f. 5.8.2004 (F.N.) until further orders.

SUSHEEL KUMAR, Jt. Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 1st September 2004

No. A-12031/4/2004-E.I.—The President is pleased to appoint Shri K. R. Gatti, Under Secretary (in-situ), in the Ministry of Road Transport & Highways as Under Secretary (Grade-I of CSS) in the same Ministry on ad-hoc basis w.e.f. 23.6.2004 (F.N.) until further orders.

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right on him to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade-I (Under Secretary) of CSS.

DR. N. C. KAUSHIK, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 17th September 2004

No. 22/2004 F. No. 25/2 (14)/2003-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2002, the President is pleased to appoint Shri Kushagra Sharma officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil) of the Central Water Engineering (Group-A) service in the scale of Rs. 8000—13500/- in the Central Water Commission w.e.f. 27.8.2004 (FN).

2. Shri Kushagra Sharma will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered.

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

No. 23/2004 F. No. 30/5/2004-E.I.—Consequent upon acceptance of resignation from Central Water Engineering (Group-A) Service, Shri Santosh Kumar Mishra, Assistant Director/Assistant Executive Engineer, Central Water Commission is relieved of his duties with effect from 06.09.2004 (AN).

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

No. 24/2004 F. No. 30/4/2004-E.I.—Consequent upon acceptance of resignation from Central Water Engineering

(Group-A) Service, Shri Vinayak Pandey, Assistant Director/Assistant Executive Engineer, Central Water Commission is relieved of his duties with effect from 06.09.2004 (AN).

HARDAYAL SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 21st September 2004

No. 7/18/2003-CGWB.—The President is pleased to appoint Shri P. C. Chaturvedi, Member (SAM), CGWB to the post of Chairman, CGWB by promotion in the Scale of pay of Rs. 22400-525-24500/- in Central Ground Water Board with effect from 26.08.2004 (FN).

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

No. 7/20/2003-CGWB.—The President is pleased to appoint the following officers presently in the grade of Regional Director to the post of Member by promotion in the Scale of pay of Rs. 18400-500-22400/- in Central Ground Water Board with effect from the dates indicated against each:—

Sl.No.	Name of the Officers	Date of promotion
	S/Shri	
1.	M. Mehta	18.08.2004 (FN)
2.	Shobh Nath Ram	30.08.2004 (FN)

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT

New Delhi-110003, the 17th September 2004

No. DOD/18/4/2004-Estt.—President is pleased to appoint Smt. Veena Chopra as First Personal Assistant to Hon'ble Minister of State (Independent charge) for Ocean Development in a temporary capacity in the pay scale of Rs. 6500-200-10,500/- w.e.f. 10th September, 2004.

This appointment will be co-terminus with the tenure of Minister of State (Independent Charge) for S&T and Ocean Development (Shri Kapil Sibal) or as long as desired by the Hon'ble Minister or until further orders whichever is earlier.

B. L. KUREEL, Under Secy.

No. DOD/18/5/2004-Estt.—President is pleased to appoint Smt. Madhu as Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of State (Independent charge) for Ocean Development in a temporary capacity in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- w.e.f. 10th September, 2004.

This appointment will be co-terminus with the tenure of Minister of State (Independent Charge) for S&T and Ocean Development (Shri Kapil Sibal) or as long as desired by the Hon'ble Minister or until further orders whichever is earlier.

B. L. KUREEL, Under Secy.